



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 21] नई दिल्ली, अक्टूबर 5—अक्टूबर 11, 2008, शनिवार/आश्विन 13—आश्विन 19, 1930
No. 21] NEW DELHI, OCTOBER 5—OCTOBER 11, 2008, SATURDAY/ASVINA 13—ASVINA 19, 1930

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक् संकलन के रूप में रखा जा सके
Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग)

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2008

का.नि.आ. 83,—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम, 1979 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा (संशोधन) नियम 2008 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम 1979 में विद्यमान अनुसूची-3 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :-

अनुसूची-3

[नियम 8(2) देखें]

रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा में सम्मिलित समूह 'क' के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं, अनुभव और आयु-सीमा

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं और अनुभव

क्रम संख्या	पद का नाम	वैज्ञानिक या इंजीनियरी या तकनीकी विषयों को ऐसे पदों के लिए जिसकी अर्हताओं की अपेक्षा हो	ऐसे पदों के लिए जिनमें चिकित्सा संबंधी अर्हताओं की अपेक्षा हो	आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	वैज्ञानिक 'ख' अनिवार्य : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान विषयों, गणित या मनोविज्ञान में कम से कम प्रथम श्रेणी में मास्टर डिग्री अथवा इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी या धातु विज्ञान में प्रथम श्रेणी की डिग्री या समतुल्य । वांछनीय : जर्मन, फ्रेंच, रूसी, जापानी या चीनी भाषा का ज्ञान ।	अनिवार्य : (i) भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम 1956 (1956 का 102) की प्रथम अनुसूची या द्वितीय अनुसूची या तृतीय अनुसूची के भाग-2 में सम्मिलित कोई चिकित्सीय अर्हता । उक्त तृतीय अनुसूची के भाग 2 में सम्मिलित कोई चिकित्सीय अर्हता मानकों को उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरी पूरा करना चाहिए । या दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16) की अनुसूची के भाग-1, भाग 2 या भाग-3 में दंत चिकित्सीय अर्हता या भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक (बी.वी. विज्ञान और ए. एच.) डिग्री । (ii) अनिवार्य पूर्ण इंटरनशिप करे पंग किया हो ।	28 वर्ष से अधिक नहीं । (केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।)	
2.	वैज्ञानिक 'ग' अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान विषयों, गणित या मनोविज्ञान में कम से कम प्रथम श्रेणी में मास्टर डिग्री अथवा इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी या धातु विज्ञान में प्रथम श्रेणी की डिग्री या समतुल्य । वांछनीय : जर्मन, फ्रेंच, रूसी, जापानी या चीनी भाषा का ज्ञान । (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान विषयों, गणित या मनोविज्ञान में कम से कम प्रथम श्रेणी में मास्टर डिग्री अथवा इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी या धातु विज्ञान में प्रथम श्रेणी की डिग्री या समतुल्य । वांछनीय : जर्मन, फ्रेंच, रूसी, जापानी या चीनी भाषा का ज्ञान । (iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान विषयों, गणित या मनोविज्ञान में कम से कम प्रथम श्रेणी में मास्टर डिग्री अथवा इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी या धातु विज्ञान में प्रथम श्रेणी की डिग्री या समतुल्य । वांछनीय : जर्मन, फ्रेंच, रूसी, जापानी या चीनी भाषा का ज्ञान ।	अनिवार्य : (i) भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम 1956 (1956 का 102) की प्रथम अनुसूची या द्वितीय अनुसूची या तृतीय अनुसूची के भाग-2 में सम्मिलित कोई चिकित्सीय अर्हता । उक्त तृतीय अनुसूची के भाग 2 में सम्मिलित कोई चिकित्सीय अर्हता मानकों को उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरी पूरा करना चाहिए । या दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16) की अनुसूची के भाग-1, भाग 2 या भाग-3 में दंत चिकित्सीय अर्हता या भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक (बी.वी. विज्ञान और ए. एच.) डिग्री । (ii) अनिवार्य पूर्ण इंटरनशिप करे पंग किया हो ।	35 वर्ष से अधिक नहीं । (केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-----	-----	-----	-----	-----

वांछनीय :

- (i) विज्ञान, गणित या मनोविज्ञान में डाक्टरेट डिग्री या इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी या धातु-विज्ञान में संबंधित विषयों में मास्टर डिग्री ।
(ii) जर्मन, फ्रेंच, रूसी, जापानी, या चीनी भाषा का ज्ञान ।

या

- भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक (बी.वी. विज्ञान और ए.एच.) डिग्री ।
(ii) अपेक्षित स्नातकोत्तर डिग्री अर्हता ।

(iii) चिकित्सा या दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में चिकित्सा राहत, चिकित्सा अनुसंधान, चिकित्सा शिक्षा या सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठन के अपेक्षित क्षेत्र में तीन वर्ष का व्यावहारिक और प्रशासनिक अनुभव ।

(iv) पारिवर्तिक भर्ती के लिए उच्चतर अर्हता को अनुसंधान अनुभव के रूप में दिए जाने वाला महत्व निम्नलिखित है :-

दंत चिकित्सा विज्ञान या पशुचिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में मास्टर डिग्री —दो वर्ष
औषध में मास्टर डिग्री —तीन वर्ष

3. वैज्ञानिक 'घ' अनिवार्य :

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान विषयों, गणित या मनोविज्ञान में कम से कम प्रथम श्रेणी में मास्टर डिग्री या इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी या धातु-विज्ञान में प्रथम श्रेणी की डिग्री या समतुल्य ।

(ii) अपेक्षित क्षेत्रों में अनुसंधान या डिजाइन या विकास या उत्पादन में सात वर्ष का अनुभव ।

(iii) पारिवर्तिक भर्ती के लिए उच्चतर अर्हता को अनुसंधान अनुभव के रूप में दिए जाने वाला महत्व निम्नलिखित है :-
इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री —दो वर्ष
विज्ञान या गणित में डाक्टरेट डिग्री

—तीन वर्ष

इंजीनियरिंग में डाक्टरेट डिग्री —चार वर्ष

वांछनीय :

- (i) विज्ञान, गणित या मनोविज्ञान में डाक्टरेट डिग्री या इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी या धातु-विज्ञान में संबंधित विषयों में मास्टर डिग्री ।
(ii) जर्मन, फ्रेंच, रूसी, जापानी, या चीनी भाषा का ज्ञान ।

अनिवार्य :

- (i) भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम 1956 (1956 का 102) की प्रथम अनुसूची या द्वितीय अनुसूची या तृतीय अनुसूची के भाग-2 में सम्मिलित कोई चिकित्सीय अर्हता । उक्त तृतीय अनुसूची के भाग-2 में सम्मिलित कोई चिकित्सीय अर्हता धारकों को उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों को भी पूरा करना चाहिए ।

या

दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16) की अनुसूची के भाग-1, भाग-2 या भाग-3 में दंत चिकित्सीय अर्हता ।

या

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक (बी.वी. विज्ञान और ए.एच.)

डिग्री

(ii) अपेक्षित मास्टर डिग्री अर्हता ।

(iii) चिकित्सा या दंतचिकित्सा या पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में चिकित्सा राहत, चिकित्सा अनुसंधान, चिकित्सा शिक्षा या सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठन के अपेक्षित

45 वर्ष से अधिक नहीं

(भारतीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिक्षित की जा सकती है ।)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>(i) अति कम वर्ष का व्यावहारिक अनुभव ।</p> <p>(ii) पारिविक भर्ती के लिए उच्चतम अनुसंधान अनुभव के रूप में ।</p> <p>(iii) महत्व निर्माणांकित है :-</p> <p>(iv) चिकित्सा विज्ञान या पशुचिकित्सा विज्ञान में मास्टर डिग्री</p> <p>या</p> <p>(v) पशुपालन में मास्टर डिग्री</p>	
4.	वैज्ञानिक 'ड' अनिवार्य :	<p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय विज्ञान विषयों, गणित या पर्यावरण विज्ञान से कम से कम प्रथम श्रेणी में स्नातक या इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी विज्ञान में प्रथम श्रेणी की डिग्री सम्पन्न ।</p> <p>(ii) अपेक्षित क्षेत्रों में अनुसंधान, डिजाइन या विकास या उत्पन्न करने के दस वर्ष का अनुभव ।</p> <p>(iii) पारिविक भर्ती के लिए उच्चतम अनुसंधान अनुभव के रूप में ।</p> <p>(iv) पारिविक भर्ती के लिए उच्चतम महत्व निर्माणांकित है :-</p> <p>(v) इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री</p> <p>या</p> <p>(vi) विज्ञान या गणित में डाक्टरेट डिग्री</p> <p>या</p> <p>(vii) इंजीनियरिंग में डाक्टरेट डिग्री</p> <p>या</p> <p>(viii) प्रौद्योगिकी में डाक्टरेट डिग्री</p>	<p>अथवा</p> <p>(i) भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा प्रमाणित (1956 का 102) की श्रेणी में प्रथम अनुसूची या तृतीय अनुसूची में सम्मिलित कोई चिकित्सा विज्ञान में प्रथम श्रेणी की डिग्री</p> <p>या</p> <p>(ii) राष्ट्रीय अनुसूची की भाग 2 में सम्मिलित कोई चिकित्सीय अर्हता धारकों की श्रेणी में प्रथम श्रेणी की डिग्री</p> <p>या</p> <p>(iii) राष्ट्रीय अनुसूची की भाग 13 की उपभाषा में सम्मिलित शर्तों को ध्यान में रखकर</p>	<p>(a) नौ वर्ष से अधिक नहीं</p> <p>(b) केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों और</p>
5.	वैज्ञानिक 'च' अनिवार्य :	<p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय विज्ञान विषयों, गणित या पर्यावरण विज्ञान से कम से कम प्रथम श्रेणी में स्नातक या इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी विज्ञान में प्रथम श्रेणी की डिग्री सम्पन्न ।</p> <p>(ii) अपेक्षित क्षेत्रों में अनुसंधान, डिजाइन या विकास या उत्पन्न करने के दस वर्ष का अनुभव ।</p> <p>(iii) पारिविक भर्ती के लिए उच्चतम अनुसंधान अनुभव के रूप में ।</p> <p>(iv) पारिविक भर्ती के लिए उच्चतम महत्व निर्माणांकित है :-</p> <p>(v) इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री</p> <p>या</p> <p>(vi) विज्ञान या गणित में डाक्टरेट डिग्री</p> <p>या</p> <p>(vii) इंजीनियरिंग में डाक्टरेट डिग्री</p> <p>या</p> <p>(viii) प्रौद्योगिकी में डाक्टरेट डिग्री</p>	<p>अथवा</p> <p>(i) भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा प्रमाणित (1956 का 102) की श्रेणी में प्रथम अनुसूची या तृतीय अनुसूची में सम्मिलित कोई चिकित्सा विज्ञान में प्रथम श्रेणी की डिग्री</p> <p>या</p> <p>(ii) राष्ट्रीय अनुसूची की भाग 2 में सम्मिलित कोई चिकित्सीय अर्हता धारकों की श्रेणी में प्रथम श्रेणी की डिग्री</p> <p>या</p> <p>(iii) राष्ट्रीय अनुसूची की भाग 13 की उपभाषा में सम्मिलित शर्तों को ध्यान में रखकर</p>	<p>(a) नौ वर्ष से अधिक नहीं</p> <p>(b) केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों और</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>या इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी या धातु-विज्ञान में कम से कम प्रथम श्रेणी की डिग्री या समतुल्य ।</p> <p>(ii) अपेक्षित क्षेत्रों में अनुसंधान या डिजाइन या विकास या उत्पादन में तेरह वर्ष का अनुभव ।</p> <p>(iii) पारिविक भर्ती के लिए उच्चतर अर्हता को अनुसंधान अनुभव के रूप में दिए जाने वाला महत्व निम्नलिखित है :-</p> <p>इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री -दो वर्ष विज्ञान या गणित में डाक्टरेट डिग्री</p> <p>-तीन वर्ष</p> <p>इंजीनियरिंग में डाक्टरेट डिग्री -चार वर्ष</p> <p>बांछनीय :</p> <p>(i) विज्ञान, गणित या मनोविज्ञान में डाक्टरेट डिग्री या इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी या धातु-विज्ञान में संबंधित विषयों में मास्टर डिग्री ।</p> <p>(ii) जर्मन, फ्रेंच, रूसी, जापानी, या चीनी भाषा का ज्ञान ।</p>	<p>भाग-2 में सम्मिलित कोई चिकित्सीय अर्हता ।</p> <p>उक्त तृतीय अनुसूची के भाग-2 में सम्मिलित कोई चिकित्सीय अर्हता धारकों को उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों को भी पूरा करना चाहिए ।</p> <p>या</p> <p>दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16) की अनुसूची की भाग-1, भाग-2 या भाग-3 में दंत चिकित्सीय अर्हता ।</p> <p>या</p> <p>भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक (बी.वी. विज्ञान और ए.एच.) डिग्री ।</p> <p>(ii) अपेक्षित मास्टर डिग्री अर्हता ।</p> <p>(iii) चिकित्सा या दंतचिकित्सा या पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में चिकित्सा राहत, चिकित्सा अनुसंधान, चिकित्सा शिक्षा या सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठन के अपेक्षित क्षेत्र में तेरह वर्ष का व्यावहारिक और प्रशासनिक अनुभव ।</p> <p>(iv) पारिविक भर्ती के लिए उच्चतर अर्हता को अनुसंधान अनुभव के रूप में दिए जाने वाला महत्व निम्नलिखित है :-</p> <p>दंतचिकित्सा विज्ञान या पशुचिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में मास्टर डिग्री -दो वर्ष</p> <p>औषध में मास्टर डिग्री -तीन वर्ष</p>	<p>आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) ।</p>	
6.	<p>वैज्ञानिक 'छ' अनिवार्य :</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान विषयों, गणित या मानोविज्ञान में कम से कम प्रथम श्रेणी में मास्टर डिग्री या इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी या धातु-विज्ञान में कम से कम प्रथम श्रेणी की डिग्री या समतुल्य ।</p> <p>(ii) अपेक्षित क्षेत्रों में अनुसंधान या डिजाइन या विकास या उत्पादन में पंद्रह वर्ष का अनुभव ।</p> <p>(iii) पारिविक भर्ती के लिए उच्चतर अर्हता को अनुसंधान अनुभव के रूप में दिए जाने वाला महत्व निम्नलिखित है :-</p> <p>इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री -दो वर्ष</p>	<p>अनिवार्य :</p> <p>(i) भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की प्रथम अनुसूची या द्वितीय अनुसूची या तृतीय अनुसूची के भाग-2 में सम्मिलित कोई चिकित्सीय अर्हता ।</p> <p>उक्त तृतीय अनुसूची के भाग-2 में सम्मिलित कोई चिकित्सीय अर्हता धारकों को उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों को भी पूरा करना चाहिए ।</p> <p>या</p> <p>दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16) की अनुसूची की भाग-1, भाग-2 या भाग-3 में दंत चिकित्सीय अर्हता ।</p>	<p>50 वर्ष से अधिक नहीं ।</p> <p>(केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) ।</p>	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		विज्ञान या गणित में डाक्टरेट डिग्री —बी.ए. 1949 इंजीनियरिंग में डाक्टरेट डिग्री चार वर्षों वांछनीय : (i) विज्ञान, गणित या मनोविज्ञान में डाक्टरेट डिग्री या इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी या धातु-विज्ञान में संशोधन विषयों में मास्टर डिग्री । (ii) जर्मन, फ्रेंच, रूसी, जापानी, या चीनी भाषा का ज्ञान ।	या भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् द्वारा प्रमाणित प्राप्त पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक (बी.वो. विज्ञान और एम.ए.) डिग्री । (ii) अपेक्षित मास्टर डिग्री अर्हता । (iii) चिकित्सा या दंतचिकित्सा या पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में चिकित्सा शिक्षित, चिकित्सा अनुसंधान, चिकित्सा शिक्षा या सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठन के अपेक्षित क्षेत्र में पंद्रह वर्ष का व्यावहारिक और प्रशासनिक अनुभव । (iv) पारिवर्तिक भर्ती के लिए उच्चतर गतना का अनुसंधान अनुभव के रूप में दिए गये गएला महत्व निम्नलिखित है :— दंतचिकित्सा विज्ञान या पशुचिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में मास्टर डिग्री या पाँच वर्षों में मास्टर डिग्री प्राप्त करने वाले	
7.	वैज्ञानिक 'ज' लागू नहीं होता (विद्यमान वैज्ञानिक)		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
8.	प्रख्यात वैज्ञानिक	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
9.	वैज्ञानिक सलाहकार और महानिदेशक अनुसंधान और विकास	सरकार द्वारा ऐसे शैक्षणिक अर्हताओं पर अनुभव विहित की जाएँ किन्तु ये अर्हताओं उन वैज्ञानिक 'छ' के लिए विशिष्ट अर्हताओं से कम नहीं होंगे ।		

[सं. डीएन १४८०१/१६२०५/डीआरडीएस/सी/वी/००६]

एस. के. दग, अवर सचिव

टिप्पण : रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम भारत में गणित भाग 2, खंड 4, में का.नि.आ. 8, तारीख 30 दिसंबर 1978 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् का.नि.आ. 30३, तारीख 1 अक्टूबर, 1980, का.नि.आ. 196, तारीख 2 अगस्त, 1982, का.नि.आ. 159, तारीख 6 मई 1983, का.नि.आ. 176, तारीख 7 अक्टूबर, 1984, का.नि.आ. 228, तारीख 13 नवंबर, 1984, का.नि.आ. 170, तारीख 12 जुलाई, 1985, का.नि.आ. 186, तारीख 2 अगस्त, 1985, का.नि.आ. 228, तारीख 6 जून, 1986, का.नि.आ. 158, तारीख 4 मई, 1987, का.नि.आ. 328, तारीख 25 सितंबर, 1987, का.नि.आ. 11-अ, तारीख 10 अगस्त, 1990, का.नि.आ. 1, तारीख 4 जनवरी, 1991, का.नि.आ. 33, तारीख 17 जनवरी, 1991, का.नि.आ. 74, तारीख 5 मार्च, 1991, का.नि.आ. 146, तारीख 4 जुलाई, 1991, का.नि.आ. 74, तारीख 24 मार्च, 1992, का.नि.आ. 155, तारीख 29 मई, 1992, का.नि.आ. 187, तारीख 26 अगस्त, 1994, का.नि.आ. 34, तारीख 8 मार्च, 1996, का.नि.आ. 33, तारीख 2 फरवरी, 1998, का.नि.आ. 100, तारीख 30 जुलाई, 1998, का.नि.आ. 119, तारीख 9 जुलाई, 1999, का.नि.आ. 51, तारीख 21 मार्च, 2003, का.नि.आ. 179, तारीख 13 अक्टूबर, 2003 और का.नि.आ. 35, तारीख 3 फरवरी, 2006 और का.नि.आ. 52, तारीख 29 सितंबर, 2007 द्वारा संशोधित किया गया ।

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 5th September, 2008

S.R.O. 83.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Defence Research and Development Service Rules, 1979, namely :—

Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Defence Research and Development Service (Amendment) Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Defence Research and Development Service Rules, 1979 for the existing Schedule III, the following Schedule shall be substituted, namely.—

SCHEDULE III

[See rule 8(2)]

Minimum educational and other qualifications, experience and age limit for direct recruitment to various Group 'A' posts included in the Defence Research and Development Service.

Educational and other qualifications and experience for direct recruits

Sl. No.	Name of Post	For posts requiring qualifications in Scientific or Engineering or Technical Subjects	For posts requiring medical qualifications	Age Limit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Scientist 'B'	<p>Essential : At least First Class Master's Degree in Science subjects, Mathematics or Psychology or First Class Degree in Engineering or Technology or Metallurgy from a recognised University or equivalent.</p> <p>Desirable : Knowledge of German, French, Russian, Japanese or Chinese.</p>	<p>Essential : (i) A medical qualification included in the First Schedule or the Second Schedule or Part II of the Third Schedule to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of medical qualifications included in Part II of the said Third Schedule should also fulfil the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the said Act.</p> <p>OR</p> <p>A dental qualification in the Part I, Part II or Part III of the Schedule to the Dentists Act, 1948 (16 of 1948).</p> <p>OR</p> <p>A Bachelor's Degree in Veterinary Science and Animal Husbandry (B.V. Sc. and A.H.) duly recognized by Veterinary Council of India.</p> <p>(ii) Completion of compulsory rotating internship.</p>	<p>Not exceeding 28 years. (Relaxable upto five years for Government servants in accordance with the instructions and orders issued by the Central Government from time to time in this regard).</p>
2.	Scientist 'C'	<p>Essential : (i) At least First Class Master's Degree in Science subjects, Mathematics or Psychology or First Class Degree in Engineering or Technology or Metallurgy from a</p>	<p>Essential : (i) A medical qualification included in the First Schedule or the Second Schedule or the Part II of the Third Schedule to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956).</p>	<p>Not exceeding 35 years (Relaxable upto five years for Government servants in accordance with the instructions issued by the</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p>recognised University or equivalent.</p> <p>(ii) Three years' experience in research or design or development or production in the required field.</p> <p>(iii) Weightage for higher qualification to be equated as research experience for lateral recruitment as under:—</p> <p>Post Graduate Degree in Field of Specialisation — 1 year</p> <p>Doctorate Degree in Science or Mathematics — 1 Year</p> <p>Doctorate Degree in Engineering or Technology — 1 year</p> <p>Desirable :</p> <p>(i) Doctorate Degree in Science or Mathematics or Psychology or Master's Degree in Engineering or Technology or Metallurgy in the subject concerned.</p> <p>(ii) Knowledge of German, French, Russian, Japanese or Chinese.</p>	<p>Holders of medical qualifications included in Part II of the said Third Schedule should also fulfil the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the said Act.</p> <p>OR</p> <p>A dental qualification in the Part II or Part III of the Schedule to the Dentists Act, 1948 (16 of 1948).</p> <p>OR</p> <p>A Bachelor's Degree in Veterinary Science and Animal Husbandry (B.V. Sc. and A.H.) duly recognized by Veterinary Council of India.</p> <p>(ii) Required Post-Graduate Degree qualification.</p> <p>(iii) Three years practical and administrative experience in the required field of medical research, medical education or public health organization in Medical or Dental or Veterinary Science and Animal Husbandry.</p> <p>(iv) Weightage for higher qualification to be equated as research experience for lateral recruitment as under:</p> <p>Post Graduate Degree in Dental Science or Veterinary Science and Animal Husbandry — Two Years</p> <p>Post Graduate Degree in Medicine — Three years</p>	<p>Central Government from time to time in this regard).</p>
3. Scientist 'D'		<p>Essential :</p> <p>(i) At least First Class Master's Degree in Science subjects, Mathematics or Psychology or First Class Degree in Engineering Technology or Metallurgy in a recognised University or equivalent.</p> <p>(ii) Seven years' experience in research or design or development or production in the required field.</p> <p>(iii) Weightage for higher qualification to be equated as research experience for lateral recruitment as under:—</p> <p>Post Graduate Degree in Field of Specialisation — 1 year</p> <p>Doctorate Degree in Science or Mathematics — 1 Year</p> <p>Doctorate Degree in Engineering or Technology — 1 year</p>	<p>Essential :</p> <p>(i) A medical qualification included in the First Schedule or the Second Schedule or the Part II of the Third Schedule to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of medical qualifications included in Part II of the said Third Schedule should also fulfil the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the said Act.</p> <p>OR</p> <p>A dental qualification in the Part II or Part III of the Schedule to the Dentists Act, 1948 (16 of 1948).</p> <p>OR</p> <p>A Bachelor's Degree in Veterinary Science and Animal Husbandry (B.V. Sc. and A.H.) duly recognized by Veterinary Council of India.</p> <p>(ii) Required Post-Graduate Degree qualification.</p>	<p>Not exceeding 45 years (Relaxable upto five years for Government servants in accordance with the instructions issued by the Central Government from time to time in this regard).</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Desirable : (i) Doctorate Degree in Science, Mathematics or Psychology or Master's Degree in Engineering or Technology or Metallurgy in the subject concerned. (ii) Knowledge of German, French, Russian, Japanese or Chinese.	qualification. (iii) Seven years practical and administrative experience in the required field of medical relief, medical research, medical education or public health organization in Medical or Dental or Veterinary Science and Animal Husbandry. (iv) Weightage for higher qualification to be equated as research experience for lateral recruitment as under :— Post Graduate Degree in Dental Science or Veterinary Science and Animal Husbandry —Two Years Post Graduate Degree in Medicine —Three years	
4. Scientist 'E'		Essential : (i) At least First Class Master's Degree in Science subjects, Mathematics or Psychology or First Class Degree in Engineering or Technology or Metallurgy from a recognised University or equivalent. (ii) Ten years' experience in research or design or development or production in the required areas. (iii) Weightage for higher qualification to be equated as research experience for lateral recruitment as under :— Post Graduate Degree in Engineering —Two Years. Doctorate Degree in Science or Mathematics —Three years Doctorate Degree in Engineering —Four Years	Essential : (i) A medical qualification included in the First Schedule or the Second Schedule or the Part II of the Third Schedule to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of medical qualifications included in Part II of the said Third Schedule should also fulfil the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the said Act. OR A dental qualification in the Part I, Part II or Part III of the Schedule to the Dentists Act, 1948 (16 of 1948). OR A Bachelor's Degree in Veterinary Science and Animal Husbandry (B.V. Sc. and A.H.) duly recognized by Veterinary Council of India.	Not exceeding 45 years (Relaxable upto five years for Government servants in accordance with the instructions issued by the Central Government from time to time in this regard).
		Desirable : (i) Doctorate Degree in Science, Mathematics or Psychology or Master's Degree in Engineering or Technology or Metallurgy in the subject concerned. (ii) Knowledge of German, French, Russian, Japanese or Chinese.	(ii) Required Post-Graduate Degree qualification. (iii) Ten years practical and administrative experience in the required field of medical relief, medical research, medical education or public health organization in Medical or Dental or Veterinary Science and Animal Husbandry. (iv) Weightage for higher qualification to be equated as research experience for lateral recruitment as under :— Post Graduate Degree in Dental Science or Veterinary Science and Animal Husbandry —Two Years	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Post Graduate Degree in Medicine — Five years	
5. Scientist 'F'	<p>Essential :</p> <p>(i) At least First Class Master's Degree in Science subjects Mathematics or Psychology or at least First Class Degree in Engineering or Technology or Metallurgy from a recognised University or equivalent.</p> <p>(ii) Thirteen years' practical experience in research or design or development or production in the required areas.</p> <p>(iii) Weightage for higher qualification to be equated as research experience for lateral recruitment as under :—</p> <p>Post Graduate Degree in Engineering — Four years Doctorate Degree in Science — Three years Doctorate Degree in Engineering — Two years</p> <p>Desirable :</p> <p>(i) Doctorate Degree in Science, Mathematics or Psychology or Master's Degree in Engineering or Technology or Metallurgy in the subject concerned.</p> <p>(ii) Knowledge of German, French, Russian, Japanese or Chinese.</p>	<p>Essential :</p> <p>(i) A medical qualification included in the First Schedule or the Second Schedule or the Part II of the Third Schedule to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of medical qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfil the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the said Act.</p> <p>OR</p> <p>A dental qualification included in Part I, Part II or Part III of the Schedule to the Dentists Act, 1948 (16 of 1948).</p> <p>OR</p> <p>A Bachelor's Degree in Veterinary Science and Animal Husbandry (B.V. Sc. and A.H.) duly recognized by Veterinary Council of India.</p> <p>(ii) Required Post-Graduate degree qualification.</p> <p>(iii) Thirteen years practical and administrative experience in the required field of medical or medical research, medical education or public health organization in Medical or Dental or Veterinary Science and Animal Husbandry.</p> <p>(iv) Weightage for higher qualification to be equated as research experience for lateral recruitment as under :—</p> <p>Post Graduate Degree in Dental Science or Veterinary Science and Animal Husbandry — Two Years</p> <p>Post Graduate Degree in Medicine — Five years</p>	Not exceeding 50 years (Relaxable upto five years for Government servants in accordance with the instructions issued by the Central Government from time to time in this regard).	
6. Scientist 'G'	<p>Essential :</p> <p>(i) At least First Class Master's Degree in Science subjects Mathematics or Psychology or at least First Class Degree in Engineering or Technology or Metallurgy from a recognised University or equivalent.</p> <p>(ii) Fifteen years' experience in research or design or development or production in the required areas.</p>	<p>Essential :</p> <p>(i) A medical qualification included in the First Schedule or the Second Schedule or the Part II of the Third Schedule to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of medical qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfil the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the said Act.</p>	Not exceeding 50 years (Relaxable upto five years for Government servants in accordance with the instructions issued by the Central Government from time to time in this regard).	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(iii) Weightage for higher qualification to be equated as research experience for lateral recruitment as under :— Post Graduate Degree in Engineering —Two Years. Doctorate Degree in Science or Mathematics —Three years Doctorate Degree in Engineering —Four Years Desirable : (i) Doctorate Degree in Science, Mathematics or Psychology or Master's Degree in Engineering or Technology or Metallurgy in the subject concerned. (ii) Knowledge of German, French, Russian, Japanese or Chinese.	OR A dental qualification in the Part I, Part II or Part III of the Schedule to the Dentists Act, 1948 (16 of 1948). OR A Bachelor's Degree in Veterinary Science and Animal Husbandry (B.V. Sc. and A.H.) duly recognized by Veterinary Council of India. (ii) Required Post-Graduate Degree qualification. (iii) Fifteen years practical and administrative experience in the required field of medical relief, medical research, medical education or public health organization in Medical or Dental or Veterinary Science and Animal Husbandry. (iv) Weightage for higher qualification to be equated as research experience for lateral recruitment as under :— Post Graduate Degree in Dental Science or Veterinary Science and Animal Husbandry —Two Years Post Graduate Degree in Medicine —Three years	
7.	Scientist 'H' (Outstanding Scientist.)	Not applicable	Not applicable	Not applicable
8.	Distinguished Scientist.	Not applicable	Not applicable	Not applicable
9.	Scientific Adviser and Director General of Research and Development	Such educational qualifications and experience as may be prescribed by the Government but these qualifications shall not be less than those prescribed for Scientist 'G'.		

[No. DHRD/76205/DRDS/C/P/06]

S. K. DEB, Under Secy.

Note : The Defence Research and Development Service Rules published in the Gazette of India Part-II, Section 4, Vide numbers S.R.O. 8, dated the 30th December, 1978, and subsequently amended *vide* S.R.O. 307, dated the 10th October, 1980, S.R.O. 196, dated the 2nd August, 1982, S.R.O. 159, dated the 6th May, 1983, S.R.O. 176, dated the 7th August, 1984, S.R.O. 228, dated the 13th November, 1984, S. R.O. 170, dated the 12th July, 1985, S.R.O. 186, dated the 2nd August, 1985, S.R.O. 228, dated the 6th June, 1986, S.R.O. 158, dated the 4th May, 1987, S.R.O. 328, dated the 25th September, 1987, S.R.O. 11-E, dated the 10th August, 1990, S.R.O. 1, dated the 1st January, 1991, S.R.O. 33, dated the 17th January, 1991, S.R.O. 74, dated the 5th March, 1991, S.R.O. 146, dated the 4th July, 1991, S.R.O. 74, dated the 24th March, 1992, S.R.O. 125, dated the 29th May, 1992, S.R.O. 157, dated the 26th August, 1994, S.R.O. 34, dated the 8th March, 1996, S.R.O. 33, dated the 2nd February, 1998, S.R.O. 100, dated the 30th July, 1998, S.R.O. 119, dated the 9th July, 1999, S.R.O. 51, dated the 27th March, 2003, S.R.O. 179, dated the 13 November, 2003, S.R.O. 35, dated the 3rd February, 2006 and S.R.O. 52, dated the 22nd September, 2007.

का.नि.आ. १३-सङ्ग्रहित, मॉडल के अनुसार
आश्वासन सेवा नियम, २००५ का संशोधन करने के लिए

नियम बनाते हैं अर्थात् :-

न.सं. दुष्ट, रक्षा वैधानिकी गुणता

1. (1) इस नियमों का मौखिक नाम था।
(2) 110 अक्टूबर, 2007 से प्रवृत्त।

अश्वत्थ आश्वत्थन सेवा (सर्गाधन)

2008

2. रक्षा वैयाकरण गणता आरत्तामन संका ()
जाएगा, अर्थात् :-

नमूने की के स्तंभ (4) में, अक्षान पर निर्धारित रखा

“भर्तों की पद्धति : भर्तों सांभ होंगे या छे न-
रिक्तियों का संशयना”

• कार्यक्षेत्र द्वारा वा आमंत्रित द्वारा • • तिथि को प्राप्त करने और बतानी

विभिन्न पक्षों का लिए, भर्षी विद्यार्थी को उत्कृष्ट-
ए.जी. 14017/2/1999-2000, (आर.आर.) पो.टी., एन.टी.
वैमानिकी गुणता अख्यतः (सब) नियम, 2008 की अनु-
का संशोधित शीर्ष, मध्यम आय 19 जनवरी, 2011 को
को मतलब प्रभाव देने में किसी को हित अधिकतम है।

॥ १५ ॥ आपन

का शीर्ष, कार्मिक और प्रति-
 ०, २००११ द्वारा संशोधित किए गए
 ०३ (१४) का शीर्ष संशोधित किया
 गया है, अतः इन नियमों को ध्यान
 में रखें।

३. निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए—
 (क) निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति है—
 (१) चूक, (२) अलु, (३) मटर, (४) गन्ना
 (ख) निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति है—
 (१) चूक, (२) अलु, (३) मटर, (४) गन्ना

टिप्पण : मूल नियम-२०४ के अन्वये प्रमाणित करने के लिए गणना की गई है।

[प्रा. सं. 254/डी.जी.पू. १९५५-५६ डी. एच.पू. ५५५५]

०. पूर, कं. बंसन, अवर सचिव

मार्च, २००५ में कानि.आ.सं. १०००/२००५ द्वारा प्रकाशित
 नया २००५ संशोधित किए गए थे।

4311

{Directorate : 00}

14. $\frac{1}{2}$; 2

S.R.O. 84. In exercise of the power hereby makes the following rules to amend the

Science Production)

Systematical Quality Assurance

29 September 2008

by the proviso to article 200 of the Constitution, the President of the Statistical Quality Assurance Service Rules, 2005, namely:

Chemical Quality Assurance (CQA) (Amendment) Rules, 2008.

1. (1) These rules may be called the *De*

(2) They shall be deemed to have con-

done on the 19th day of January.

1. 19

In Schedule-1 of the Defence Act:

Life Assurance Service Ref. 2. In column 4, for the column

heading, the following shall be substituted, namely:

"Method of recruitment: Whether 100 per cent of the vacancies to be filled."

"...and by promotion . . . , publication or absorption and
methods."

: Memorandum

The Government of Karnataka has introduced the Government of Karnataka Bill, 2007. According to the bill, the Government of Karnataka 2005 is amended to provide for the Government of Karnataka (4) of Schedule 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 8

recruitment rules of various departments have been amended rule No AB 149177/1987, issued by the Defence Administration, with retrospective effect from the 19th day of January 1997 and no person will be eligible.

IF No 25:

Casey-1 [733-0110] [A]

c. BANSAL, Under Secy.

Foot Note : The principal rules were published in SRO 152, dated the 1st December 1991.

Florida Part-III, Section 1
Case No. SGO 45 dated

13 Feb. December, 2005 (n/a)
14 Feb. 2007.

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2008

कार.नि.आ. 85.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और नौसेना समूह 'ग' (नौसैनिक आयुधादि निरीक्षण संगठन) पद भर्ती नियम, 1981 को, उन बातों के सिवाय अधिकांति करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, नौसेना में नौसैनिक आयुधादि निरीक्षण संगठन समूह 'ख' और समूह 'ग' (तकनीकी पर्यवेक्षीय कर्मचारिवृंद) पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इस नियमों का संक्षिप्त नाम एकीकृत मुख्यालय-रक्षा मंत्रालय, (नौसेना) नौसैनिक आयुधादि निरीक्षण संगठन, तकनीकी पर्यवेक्षीय कर्मचारिवृंद और परीक्षक, मैकेनिक और गोला बारूद तथा विस्फोटक सामग्री, समूह 'ख' और समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. संख्या, वर्गीकरण, वेतनमान और चयन की पद्धति.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं, आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (6) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श के पश्चात्, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयनपद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. फोरमैन (मैकेनिक)	41 * (2008) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसूचित	7450-225- 11500 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अर्हताएँ शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अर्हताएँ शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में होंगी या नहीं

प्रोन्नति की अवधि, यदि कोई हो

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलेन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

(11)	(12)
------	------

प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सौंपदा भी है) द्वारा

प्रोन्नति : 5,500-10,500 रु. के वेतनमान में सहायक फोरमैन (मैकेनिक) (हस्तगत) श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा करने के तिसरे दिन से प्रयोजन के लिए प्रोन्नति के अर्हता परीक्षा पास की है, जिसके न हो सकने पर ऐसा सहायक फोरमैन (मैकेनिक), जिसने सहायक फोरमैन (मैकेनिक) और चार्जमैन के रूप में पांच वर्ष नियमित नियमित सेवा की है, जिसमें से एक वर्ष की नियमित सेवा सहायक फोरमैन (मैकेनिक) के रूप में हो तथा जिसने प्रोन्नति के लिए विभागीय अर्हता परीक्षा पास की है।

प्रोन्नति : यहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संयोजन में जिनकी अपनी अर्हता या पात्रता परीक्षा पर ही है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों की संयोजन में भी विचार किया जाएगा और यह कि उसको द्वारा को प्रोन्नति अर्हतापात्रता सेवा, अर्हतापात्रता सेवा के अर्थ से अधिक से या दो वर्ष से कम से दो वर्ष कम हो, कम न हो और उससे पहले ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, प्रोन्नति पर अर्हतापात्रता सेवा पहले ही पूर्ण हो चुकी है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि परीक्षा के पूर्ण करने की हो।

प्रोन्नति के लिए अर्हताएँ : [जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सौंपदा भी है] :—केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कर्मचारी संघों या कानूनी या स्वशासी संगठनों के अंतर्गत ऐसे अधिकारियों :

जिनकी प्रोन्नति मूल काडर या विभाग में निरंतर आधार पर संबंध क्षेत्र में सदृश प्रोन्नति पात्रता हुआ है; या

जिनकी प्रोन्नति मूल काडर या विभाग में 6500-10,5000 रुपये या समतुल्य के वेतनमान पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की हो।

प्रोन्नति के अंतर्गत शैक्षिक अर्हताएँ और अन्य अर्हताएँ हों :

जिनकी प्रोन्नति माध्यमताप्राप्त विश्वविद्यालय से औद्योगिक इंजीनियरी या मैकेनिक या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या उत्पादन इंजीनियरी में स्नातक या समतुल्य ;

जिनकी प्रोन्नति उत्पादन और निरीक्षण के क्षेत्र में गुणवत्ता नियंत्रण या गुणवत्ता प्रबंधन विभाग में दो वर्ष का कार्यकारी अनुभव हो।

प्रोन्नति के अर्हताएँ प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारियों या प्रोन्नति की सीधे रिक्ति में हैं, प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

इसके अलावा प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(12)

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काइर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) की अवधि भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

(14)

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

1. निदेशक, नौसैनिक आयुधादि निरीक्षण संगठन —अध्यक्ष
2. संयुक्त निदेशक (प्रशासन), नौसैनिक आयुधादि निरीक्षण संगठन —सदस्य
3. संयुक्त निदेशक या उप निदेशक या समतुल्य रैंक के दो अधिकारी, —सदस्य
एक अधिकारी नौसैनिक आयुधादि महानिदेशालय से और दूसरा अधिकारी नौसैनिक शिक्षा निदेशालय से

किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) पर नियुक्त करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. फोरमैन (गोलाबारूद और विस्फोटक सामग्री) के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	30* (2008) * (कार्यभार	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसर्चनीय	7450-225-11500 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(11)

(12)

प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) द्वारा

प्रोन्नति : 6500-10500 रु. के वेतनमान में ऐसा सहायक फोरमैन (गोलाबारूद और विस्फोटक सामग्री), जिसने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है और जिसने इस प्रयोजन के लिए विभागीय अर्हक परीक्षा पास की है, जिसके न हो सकने पर ऐसा सहायक फोरमैन (गोलाबारूद और विस्फोटक सामग्री), जिसने सहायक फोरमैन (गोलाबारूद और विस्फोटक सामग्री) और आर्जमेंट-1 (गोलाबारूद और विस्फोटक सामग्री) के रूप में पांच वर्ष की सम्मिलित नियमित सेवा की है, जिसमें से एक वर्ष की नियमित सेवा सहायक फोरमैन (गोलाबारूद और विस्फोटक सामग्री) के रूप में हो तथा जिसने इस प्रयोजन के लिए विभागीय अर्हक परीक्षा पास की है।

(12)

जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों का
 प्रवेश हो सके, प्रोन्नति के लिए
 उन्हें संचालन में भी विचार किया
 जाये। अदक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक
 का ये जो भी कम हो, कम न हो अपेक्षित
 अर्हक/पात्रता सेवा पहले से
 ही प्राप्त अपनी परीक्षा की अपेक्षा

संज्ञित : [जिसके अंतर्गत अल्पतः
: १०० करोड़ या मध्य राज्य क्षेत्रों या वि
: १०० करोड़ या कानूनी या स्वशासी संग

... जिन्होंने भूल का डर या विभा...

विशेष निम्न काडर या विभाग में कार्य करने के लिए आवश्यक आधार पर नियुक्ति के पश्चात्
ए. निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं

अथान्तर्यामिणोऽपि त्रिभिः शब्दैः
अन्तर्यामिणोऽपि त्रिभिः शब्दैः

आनुवांशिक उत्पादन और निरोक्षण
 इन विभाग में दो वर्ष का कार्यकाल

1. गांधीक प्रवर्ध के ऐसे विभागीय
विभाग पर नियुक्ति के लिए विना

4. प्रतियोगिता व्यक्ति प्रोत्साहित :
हो जाये ।

राष्ट्र (जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति, संसदीय सरकार के उसी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य करने वाली किसी अन्य काइर, लोकपाल समिति भी है) की अवधि में प्रत्येक निर्वाचित (जिसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष आठ सौ सीमा आवेदन प्राप्त होंगे)।

जन्मने अपनी अहंता या पात्रता को त्याग रहा हो जहां उनके ज्योत्स्न प्रकाश तब उभर कि उसको द्वारा की प्रकाश के साथ से अधिक से दो वर्ष के अग्रिम में कविता व्यक्तियों सहित, प्रकाश है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रकाश प्रदीप कर ली हो।

संविदा भी है] : - केंद्रीय सरकार
जोषों या वित्तिक सेक्टर उपक्रमों या
अन्य ऐसे अधिकारों :

विशेष आधार पर संबद्ध क्षेत्र में सदृश

अपने अर्थ या समतुल्य के वित्तभार
में दो वर्ष सेवा की हो; और
वर्ष गत हो :

:- जीर्णवरी में स्नातक या रसायनशास्त्र

५. में गुणवत्ता नियंत्रण या गुणवत्ता
नियंत्रण।

14. जो प्रेक्षा की सीधी पंक्ति में हैं,
उन के पास नहीं होंगे।

• १९५७ में विनाय विचार किए जाने के

[illegible]

(13)

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगा

1. निदेशक, नौसैनिक आयुधार्थि निरोक्षण समिति
2. संयुक्त निदेशक, (प्रशासन), नौसैनिक आयुधार्थि निरोक्षण समिति
3. संयुक्त निदेशक या उप निदेशक या समतुल्य रैंक का अधिकारी नौसैनिक आयुधार्थि महानिदेशालय या अधिकारी नौसैनिक शिक्षा निदेशालय से

. 14)

निर्यात, राजी को प्रांतिनियुक्ति (रिजिस्ट्रेशन) के बिना निर्यात करने से मना है। पर निर्यात के लिए मध्य लोक सेवा आयोग को सूचित आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. सहायक फोरमैन (मैकेनिक)	69*(2008) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसूचिबन्ध	6500-200-10500 रु.	चयन	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक टिप्पण 1 : केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा-जिले के पोंगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिकी, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या उत्पादन इंजीनियरी के क्षेत्र में इंजीनियरी में स्नातक या समतुल्य।	नहीं	सीधे भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए दो वर्ष
(ii) इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल या उत्पादन इंजीनियरी के क्षेत्र में पर्यवेक्षीय हैसियत में दो वर्ष का अनुभव।		
टिप्पण 1 - अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, शिथिल की जा सकती है।		
टिप्पण 2- अनुभव संबंधी अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।		

(11)	(12)
25% सीधे भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : 5500-9000 रुपए के वेतनमान में ऐसा चार्जमैन-I (मैकेनिक), जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और जिसने इस प्रयोजन के लिए विभागीय अर्हक परीक्षा पास की है
75% प्रोन्नति द्वारा।	टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें

(8)

टिप्पणी 2.—अनुभव संबंधी अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

(11)

(12)

25% सीधी भर्ती द्वारा।
75% प्रोन्नति द्वारा।

प्रोन्नति : 5500-9000 रुपए के वेतनमान में ऐसा चार्जमैन-I (गोलाबारूद और विस्फोटक सामग्री), जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और जिसने इस प्रयोजन के लिए विभागीय अर्हक परीक्षा पास की है।

टिप्पणी : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा को अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(13)

(14)

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति तथा सीधे भर्ती हुए कर्मचारियों के पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

1. निदेशक, नौसैनिक आयुधादि निरीक्षण संगठन —अध्यक्ष
2. संयुक्त निदेशक (प्रशासन), नौसैनिक आयुधादि निरीक्षण संगठन —सदस्य
3. संयुक्त निदेशक या उप निदेशक या समतुल्य रैंक के दो अधिकारी, —सदस्य

एक अधिकारी नौसैनिक आयुधादि महानिदेशालय से और दूसरा अधिकारी नौसैनिक शिक्षा निदेशालय से

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. चार्जमैन-I (मैकेनिक)	68*(2008)* (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराज्यपत्रित, अनुसूचितीय	5500-175-9000 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)

(9)

(10)

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

(11)

प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(12)

अनु-12 : 5000-8000 रुपए के वेतनमान में एक या चार्जमैन-II (मैकेनिक), जिसने प्रोन्नति से तीन वर्ष नियमित सेवा की है उसे प्रदान इस प्रयोजन के लिए विभागीय प्रोन्नति परीक्षा पास की है।

जहाँ जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संख्या में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा प्रोन्नति से है, प्रोन्नति के लिए विचार किया गया हो जहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संख्या में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह ध्यान रखना होगा कि उसका द्वारा की गई ऐसी सेवा प्रोन्नति सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से अधिक से दो वर्ष से, इसमें प्रोन्नति से कम हो, कम न हो और उन्होंने प्रोन्नति से कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने प्रोन्नति से अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, उनकी उत्तम श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरा कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति :—केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी।

अनु-13 : जिन्होंने मूल काडर या विभाग में प्रोन्नति आधार पर सहायक पद धारण किया है या

जिन्होंने मूल काडर या विभाग में प्रोन्नति आधार पर समतुल्य के अन्तर्गत में नियमित आधार पर नियुक्ति के लिए प्रोन्नति से दो वर्ष सेवा की है।

अनु-14 : निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं अनिवार्य रखते हैं :-

(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान में यांत्रिक या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिक्स या उत्पादन इंजीनियरी में डिप्लोमा या समतुल्य ;

(2) आयुधादि उत्पादन और निरीक्षण का कार्य में गुणवत्ता नियंत्रण या गुणवत्ता प्रबंधन विभाग में एक वर्ष का अनुभव।

नियमक, —प्राप्त प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

केंद्रीय सरकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक नियुक्ति भी है) की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से पहले धारित किसी अन्य काडर या पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक नियुक्ति भी है) की अवधि का उपयोग नतीजा तीन वर्ष से अधिक नहीं होगा। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक नियुक्ति भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(13)

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति सीमा (प्रोन्नति के लिए विचार करने के लिए)

निम्नलिखित से नियुक्त होंगे :

1. निदेशक, नौसैनिक आयुधादि निरीक्षण संगठन —अध्यक्ष
2. संयुक्त निदेशक (प्रशासन), नौसैनिक आयुधादि निरीक्षण संगठन —सदस्य
3. संयुक्त निदेशक या उप निदेशक या समतुल्य रैंक में कोई अधिकारी, —सदस्य

एक अधिकारी नौसैनिक आयुधादि महानिदेशालय से और एक

अधिकारी नौसैनिक शिक्षा निदेशालय से

(14)

प्रोन्नति सेवा आयोग से परामर्श

आयोग आवश्यक नहीं है।

(13)

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए)
निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :

1. निदेशक, नौसैनिक आयुधादि निरीक्षण संगठन —अध्यक्ष
2. संयुक्त निदेशक (प्रशासन), नौसैनिक आयुधादि निरीक्षण संगठन —सदस्य
3. संयुक्त निदेशक या उप निदेशक या समतुल्य रैंक के दो अधिकारी, —सदस्य

एक अधिकारी नौसैनिक आयुधादि महानिदेशालय से और दूसरा
अधिकारी नौसैनिक शिक्षा निदेशालय से

(14)

संग जाकर मेवा आयोग से परामर्श
करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. चार्जमैन-2 (मैकेनिक)	96*(2008) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', असोजपत्रित, अननुसर्चिवीय	5000-1500 8000 रु.	लगू नहीं होगा	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष टिप्पण 1 : केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अध्यापकों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिक्षित को जा जा सकती है। टिप्पण 2 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आने-जा प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (चूंकि वह अंतिम तारीख जा असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, पश्चिम, नागालैंड, त्रिपुरा, मिज़ोरम जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमन और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(8)

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भौतिकी या गणित
शास्त्र या गणित के साथ विज्ञान स्नातक उपाधि।

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल
या इलेक्ट्रॉनिक्स या उत्पादन इंजीनियरी में डिप्लोमा।

(9)

लागू नहीं होता

(10)

दो वर्ष

(11)

सीधी भर्ती द्वारा।

(12)

लागू नहीं होता

(13)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (सीधे भर्ती हुए कर्मचारियों के
पुष्टिकरण के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

1. नौसैनिक आयुधादि निरीक्षण संगठन में संयुक्त निदेशक रैंक के
का अधिकारी

—अध्यक्ष

(14)

लगू नहीं होता।

(13)

2. नौसैनिक आयुधादि निरीक्षण संगठन में उप निदेशक की श्रेणी

अधिकारी

—सदस्य

3. किसी नौसैनिक स्थापन में सहायक निदेशक की श्रेणी के दो

अधिकारी या समतुल्य

—सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8. चार्जमैन-2 (गोलाबारूद और विस्फोटक सामग्री)	70*(2008) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	5,000-150- 8,000 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष। टिप्पण 1 : केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भौतिकी या रसायन शास्त्र या गणित के साथ विज्ञान स्नातक उपाधि। या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से रसायन इंजीनियरी में डिप्लोमा।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए दो वर्ष।

(11)	(12)
33-1/3% (एक तिहाई पर) सीधी भर्ती द्वारा। 66-2/3% (दो तिहाई पर) प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : ऐसा परीक्षक, जिसने 4000-6000 रुपये के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष सेवा की है और जिसने इस प्रयोजन के लिए विभागीय अर्हक परीक्षा पास की है। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, आगामी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

New Delhi, the 16th September, 2008

S.R.O. 85.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Navy Group 'C' (Naval Armament Inspection Organisation) Posts Recruitment Rules, 1981, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Naval Armament Inspection Organisation Group 'B' and 'C' (Technical Supervisory Staff) posts in Navy, Ministry of Defence, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Navy), Naval Armament Inspection Organisation, Technical Supervisory Staff and Examiner Mechanic and Ammunition and Explosives, Group 'B' and 'C' posts Recruitment Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, classification, scales of pay and method of selection.—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (5) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating there to shall be as specified in columns (6) to (14) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward Classes, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I. Foreman (Mechanic)	41* (2008) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 7450-225-11500	Selection	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable
Method of recruitment Whether by direct recruitment by deputation or absorption or by promotion and percentage of the vacancies to be filled by various methods		In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(11)	(12)	
Promotion failing which by deputation, (including short term contract)	Promotion:	
	<p>Assistant Foreman (Mechanic in the pay scale of Rs. 6500-10500) with two years regular service in the grade and who have passed the departmental qualifying test for the purpose, failing which Assistant Foreman (Mechanic) with five years combined regular service as Assistant Foreman (Mechanic) and Chargeman-I (Mechanic) out of which one year regular service as Assistant Foreman (Mechanic) and who have passed the departmental qualifying test for the purpose.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation: (Including Short Term Contract): Officers of the Central or State or Union-Territories or Universities or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisations:</p> <p>(a)(i) Holding analogous post on regular basis in the relevant field in the parent cadre/department; or</p> <p>(ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 6500-10500 or equivalent in the parent cadre/department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience:—</p> <p>(a) Degree in Engineering in Industrial or Mechanical or Electrical or Electronics or Production Engineering from a recognised University or equivalent;</p> <p>(ii) two years working experience in Quality Control or Quality Assurance department in the area of Armament Production and Inspection.</p> <p>Note: The Departmental Officers in the feeder category who are in the Direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.</p> <p>Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of the receipt of applications.</p>	

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :—	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing officer on deputation (including short term contract).
(1) Director, Naval Armament Inspection Organisation — Chairman	
(2) Joint Director (Administration), Naval Armament Inspection Organisation — Member	
(3) Two Officer of the rank of Joint Director or Deputy Director or equivalent, one officer from the Directorate General of Naval Armament and one officer from Directorate of Naval Education — Members	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Foreman (Ammunition and Explosive)	30* (2008) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 7450- 225-11500	Selection	Not applicable	Not applicable

(11)	(12)
Promotion failing which by deputation. (including short term contract)	<p>Promotion : Assistant Foreman (Ammunition and Explosive) in the pay scale of Rs. 6500-10500 with two years regular service in the grade and who have passed the departmental qualifying test for the purpose, failing which Assistant Foreman (Ammunition and Explosive) with five years combined regular service as Assistant Foreman (Ammunition and Explosive) and Chageman-I (Ammunition and Explosive) out of which one year regular service as Assistant Foreman (Ammunition and Explosive) and who have passed the departmental qualifying test for the purpose.</p> <p>Note : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation : (Including Short Term Contract): Officers under the Central or State Government or Union-Territories or Universities or recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi-Government</p>

(12)

or Statutory or Autonomous Organisations:

(a) (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or

(ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 6500-10500 or equivalent in the parent cadre/department; and

(b) possessing the following educational qualifications and experience:—

(i) Degree in Chemical Engineering or Master's Degree in Chemistry from a recognised University or equivalent.

(ii) two years' experience in Quality Control or Quality Assurance department in the area of Armament Production and Inspection.

Note: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.

Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation (Including Short Term Contract) shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of the receipt of applications.

(13)

(14)

Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:—

(1) Director, Naval Armament Inspection Organisation — Chairman

(2) Joint Director (Administration), Naval Armament Inspection Organisation — Member

(3) Two Officers of the rank of Joint Director or Deputy Director or equivalent, one officer from the Directorate

General of Naval Armament and one officer from

Directorate of Naval Education

Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short term contract).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Assistant Foreman (Mechanic)	69* (3981) *Subject to variation dependent on workload.	General Category Service Group 15 Non Government Non-Ministerial	Rs. 4,500- 105,0500	Selection	Not applicable	No Exceeding 30 years. Note 1 : Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 2 : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt

(7)

of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep)

(8)

(9)

(10)

(i) Degree in Engineering in the disciplines of Mechanical, Electrical or Electronics or Production Engineering From a recognised University or Equivalent.

No

Two years for direct recruits

(ii) Two years experience of supervisory nature in the field of Electronics or Electrical or Production Engineering.

Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

Note 2: The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if any, at any stage of selection the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

(11)

(12)

25% by direct recruitment.
75% by promotion

Promotion :

Chargeman-I (Mechanic) in the pay scale of Rs. 5000-9000 with three years regular service in the grade and who have passed the departmental qualifying test for the purpose.

Note : Where junior who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility

			(12)		
			or two years, whichever is less, and have successfully completed the probation period for promotion to the next higher grade along with the conditions who have already completed such qualifying or eligibility period.		
			(13)	(14)	
Group 'B' Departmental Promotion Committee (In considering promotion and confirmation of direct recruits) consisting of:—			Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.		
(1) Director, Naval Armament Inspection Organisation			Chairman		
(2) Joint Director (Administration), Naval Armament Inspection Organisation			Member		
(3) Two Officers of the rank of Joint Director or below, Director or equivalent, one officer from the Directorate General of Naval Armament and one officer from Directorate of Naval Education			Members		
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
4. Assistant Foreman (Ammunition and Explosive)	50* (2008) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'B' Non Gazetted Non-Ministerial	Selection	Not applicable	No Exceeding 30 years. Note 1: Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).
(8)	(9)	(10)			
Essential: (i) Degree in Chemical Engineering from a recognised University or Equivalent, or Master's Degree in Chemistry from a recognised University or equivalent.	No	Two years for direct recruits			

(8)

(ii) Two years experience of supervisory nature in Quality Control or Quality Assurance Department in the area of Armament Production and Inspection.

Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

Note 2 : The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if any, at any stage of selection the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

(11)	(12)
25% by direct recruitment. 75% by promotion	<p>Promotion : Chargeman-I (Ammunition and Explosive) in the pay scale of Rs. 5500-9000 with three years regular service in the grade and who have passed the departmental qualifying test for the propose.</p> <p>Note : Where junior who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>

(13)	(14)
<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation of direct recruits) consisting of:—</p> <p>(1) Director, Naval Armament Inspection Organisation — Chairman</p> <p>(2) Joint Director (Administration), Naval Armament Inspection Organisation — Member</p> <p>(3) Two Officers of the rank of Joint Director or Deputy Directors or equivalent, one officer from the Directorate General of Naval Armament and one officer from Directorate of Naval Education — Members</p>	<p>Consultation with the Union Public Service Commission not necessary.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. Chargeman-I (Mechanic)	68* (2008) (*Subject to variation dependent on work load.)	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 5500-175-9000	Selection	Not applicable	Not applicable
(8)		(9)		(10)		
Not applicable		Not applicable		Two years for promotees		

(11)	(12)
Promotion failing which by deputation.	<p>Promotion : Chargeman- II (Mechanic) in the pay scale of Rs. 5000-8000 with three years regular service in the grade and who have passed the departmental qualifying test.</p> <p>Note : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of requisite, qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation : Officers of the Central Government -</p> <p>(a)(i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or</p> <p>(ii) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 5000-8000 or equivalent in the parent cadre/department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience:-</p> <p>(i) Diploma in Mechanical or Electrical or Electronics or Production Engineering from a recognised University or Institute or equivalent;</p> <p>(ii) one years experience in Quality Control or Quality Assurance function in the area of Assembly, maintenance and inspection.</p> <p>Note : The Departmental Officers and other category who are in the initial stage of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.</p> <p>Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post which immediately precedes the post vacant in the same or some other organization or Department of the Central Government, shall normally not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years, as on the closing date of the receipt of applications.</p>

(13)	(14)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:—	Consultation with the Union Public Service Commission not necessary.
(1) Director, Naval Armament Inspection Organisation — Chairman	
(2) Joint Director (Administration), Naval Armament Inspection Organisation — Member	
(3) Two Officers of the rank of Joint Director or Deputy Director or equivalent, one officer from the Directorate General of Naval Armament and one officer from Directorate of Naval Education — Members	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. Chageman-I (Ammunition and Explosive)	50* (2008) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 5500-175-9000	Selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years for promotees

(11)	(12)
By Promotion failing which by deputation.	Promotion :

Chageman-II (Ammunition and Explosive) in the pay scale of Rs. 5000-8000 with three years regular service in the grade and who have passed the departmental qualifying test.

Note : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation : Officers of the Central Government -

(a)(i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or

(ii) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 5000-8000 or equivalent in the parent cadre/department; and

(b) possessing the following educational qualifications and experience:-

(i) Diploma in Chemical Engineering from a recognised University or Institute or equivalent;

(ii) one years experience in Quality Control or Quality Assurance department in the area of Armament Production and Inspection.

(12)

- (a) Departmental Officers in the category who are in the field for consideration for promotion shall not be considered for promotion on deputation.
- (b) Deputationists shall not be considered for promotion.
- (c) Deputation including period of leave not to exceed immediately preceding this promotion in the same or some other Government, shall not to exceed three years.
- (d) Deputation by deputation shall be considered on the basis of the receipt of application.

(13)

Group 'B' Departmental Promotion Committee (promotion) consisting of:—

- (1) Director, Naval Armament Inspection Organisation
- (2) Joint Director (Administration), Naval Armament Inspection Organisation
- (3) Two Officers of the rank of Joint Director or Joint Director or equivalent, one officer from the Directorate General of Naval Armament and one officer from Directorate of Naval Education

Flag

Constable
Commissary

Commissioner of Public Service
Commissioner

Chairman
Member

Members

(1)	(2)	(3)
7. Chargeman-II (Mechanic)	96* (2008) *Subject to variation dependent on workload.	General Control Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial

(5)	(6)
Not applicable	Not applicable

(7) 18-25 years.
Note 1: Relaxable for Government Servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.
Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Tripura, Sikkim, Jammu Division of Jammu and Kashmir State, Lhasa, Ladakh District and Pangi Division of Jammu and Kashmir, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.

(8)	(9)	(10)
Bachelor of Science degree with Physics or Chemistry or Mathematics from a recognised University or institution.	Not applicable	Two years
or		
Diploma in Electrical or Mechanical or Electronics or Production Engineering from a recognised University or Board		

(11)	(12)
By direct recruitment	Not applicable

(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation of direct recruits) consisting of:—	Not applicable
1. Officer of the rank of Joint Director, Naval Armament Inspection Organisation —Chairman	
2. Officer of the rank of Deputy Director in Naval Armament Inspection organisation —Member	
3. Two officers of the rank of Assistant Director or equivalent in any Naval Establishment —Members	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8. Chageman-II (Ammunition and Explosive)	70* (2008) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 5000-150-8000	Non Selection	Not applicable	18-25 years. Note 1: Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(8)	(9)	(10)
Bachelor of Science degree with Physics or Chemistry or Mathematics from a recognised University or institution or Diploma in Chemical Engineering from a recognised University or Board	Not applicable	Two years for direct recruits
(11)	(12)	
33-1/3% (1/3rd posts) by direct recruitment 66-2/3% (2/3rd posts) by promotion failing which by direct recruitment	Promotion : Examiner having eight years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 4000-6000 and who have passed in a departmental test to become eligible for consideration for the propose. Note : Where junior who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	
(13)	(14)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for promotion or confirmation of direct recruits) consisting of : 1. Officer of the rank of Joint Director, in Naval Armament Inspection Organisation —Chairman 2. Officer of the rank of Deputy Director in Naval Armament Inspection Organisation —Member 3. Two Officers of the rank of Assistant Director or equivalent in any Naval Establishment —Members	Not applicable.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9. Examiner	70* (2008) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 4000-6000	Not applicable	Not applicable	18-25 years. Note 1 : Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 2 : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim,

(7)		
Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangri sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep)		
(8)	(9)	(10)
Senior Secondary School Certificate Examination (10+2) or equivalent from a recognised Board or Institution with Physics and Chemistry	Not applicable	Two years
(11)	(12)	
Not applicable	Not applicable	
(13)	(14)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation of direct recruits) consisting of:—	Not applicable	
1. Officer of the rank of Joint Director, in Naval Armament Inspection Organisation —Chairman		
2. Officer of the rank of Deputy Director in Naval Armament Inspection Organisation —Member		
3. Two officers of the rank of Assistant Director or equivalent in any Naval Establishment —Members		

[F. No. CP(NG)/2816/RR/NAIO/647/RR/D (Apptt.)]

S. D. PAUL, Dy. Secy.

(रक्षा उत्पादन विभाग)

(वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2008

का.नि.आ. 86.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय समूह 'ख' और 'ग' (अनुसचिवीय पद) भर्ती नियम, 2006 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय समूह 'ख' और 'ग' (अनुसचिवीय पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय समूह 'ख' और 'ग' (अनुसचिवीय पद) भर्ती नियम, 2006 में,—

(i) नियम 5 के हिंदी पाठ में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है;

(ii) अनुसूची में, क्रम सं. 5 पर पद के अधीन, स्तंभ 13 में क्रम सं. 2 और 3 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

- “2. वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशक से प्रथम वैज्ञानिक अधिकारी- सदस्य :
3. किसी अन्य रक्षा स्थापन से प्रधान वैज्ञानिक- सदस्य ।”

[फा. सं. 2523/डो.जी.ए. आ. (अ.प्र.)/539-III/डी. (एन्. ए. एम्.)]

डॉ. एस. के. बंसल, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल नियम शासकीय राजपत्र, भाग II, खण्ड 3 में का.नि.आ. सं. 57 तारीख 25 अप्रैल 2006 में प्रकाशित किए गए थे।

(Department of Defence Production)

(Directorate General of Aeronautical Quality Assurance)

New Delhi: the 30th September, 2008

S.R.O. 86.— In exercise of the power conferred by the proviso to article 73 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, Department of Defence Production, Ministry of Defence, Groups 'B' and 'C' (Ministerial Posts) Recruitment Rules 2006, namely :

1. (1) These rules may be called the Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, Department of Defence Production, Ministry of Defence, Groups 'B' and 'C' (Ministerial Posts) Recruitment Amendment Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, Department of Defence Production, Ministry of Defence, Group 'B' and 'C' (Ministerial Posts) Recruitment Rules, 2006,—

(i) in rule 5, after the words “reasons to be recorded in writing”, the words “in consultation with the Union Public Service Commission” shall be inserted;

(ii) in the Schedule against the post at serial number 5, in column 13 for serial numbers 2 and 3 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

“2. Two Principal Scientific Officers from Directorate General of Aeronautical Quality Assurance—Members.”

3. Principal Scientific Officer from any other Defence establishment—Member.”

[F.No. 2523/3-1(AQA)/Admn-1/539-III-D (H.A.)]

Dr. S. K. BANSAL, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Official Gazette Part II, Section 3, rule number S.R.O. 57, dated the 25th April, 2006.